



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 1995/अग्रहायण 30, 1917

No. 231] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 1995/AGRAHAYANA 30, 1917

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(वजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसंबर, 1995

13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2000 की बिक्री

एफ. सं. 4(4) डब्ल्यू. एंड. एम./95, भारत सरकार एतद्वारा 2,000.00 करोड़ रुपए (नामिनल) की कुल राशि के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक की बिक्री अधिसूचित करती है।

निवेश के लिए पात्रता

2. फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थानों, राज्य सरकारों, भविष्य निधियों और न्यासों सहित कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता हो, सरकारी स्टॉक में निवेश कर सकता है। तथापि, किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है या कोई विदेशी कंपनी है जिसका भारत में कार्यालय है, इसके पञ्चात् निर्धारित की जाने

वाली शर्तों के अनुसार सरकारी स्टॉक पर लागू कानूनों के अन्य उपबंधों के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन ही निवेश किया जा जाएगा।

निर्गमन की विधि

3. (i) सरकारी स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, बंबई-400 001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

(ii) यदि कुल अभिदान 2,000 रुपए की राशि से अधिक हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक सभी आवेदकों को आंशिक आखंडन कर सकता है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक को यह विवेकाधिकार होगा कि यदि वह उचित समझे तो कोई कारण बताए बिना ही किसी या सभी आवेदनों को या तो पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।

(iv) इस पैराग्राफ के खंड (ii) के तहत अतिरिक्त अभिदान की राशि या इस पैराग्राफ के खंड (iii) के तहत आवेदन की अस्वीकृति के मामले में अभिदान की राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित अभिदाताओं को यथा-

पठित लोक ऋण अधिनियम, 1944 और लोक ऋण नियमावली, 1946 या इस संबंध में भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भविष्य में जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियों की शर्तों द्वारा निपटाए जाते हैं।

(ii) भारत में इस समय लागू कर कानूनों के उपबंध सरकारी स्टॉक के निवेश अथवा धारक की देनदारी के मुख्य महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, फोर्ट बम्बई-400001

मूल्यांकन और निर्धारण करने के प्रयोजनों हेतु श्रेयोज्य होंगे।

(iii) सरकारी स्टॉक के संबंध में किसी विवाद का निर्णय भारत में न्यायालयों द्वारा किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
रमा मंगल, संयुक्त सचिव (करेंसी एवं सिधक और
प्रशासन तथा बजट)

13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2000

अनुबंध

के लिए आवेदन-पत्र

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4(4)-उच्च एंड. एम./95 दिनांक 21 दिसम्बर, 1995 के अनुमरण में *मैं/हम..... (पूरा नाम साफ अक्षरों में) इसके साथ..... रूप (..... रूप *नकद/भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के नाम आहरित बैंक/बैंकर का भुगतान आदेश प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं और अनुरोध करती हूँ/करते हैं कि *मुझे/हमें..... रूप के नामिनल मूल्य के 13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2000 की प्रतिभूतियां *स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में जारी की जाए/मिरे/हमारे एस.जी.एल. खाते (सं.....) में जमा की जाए।

2. *मैं चाहता हूँ/हम चाहते हैं कि ब्याज..... पर अदा किया जाए।

3. *मैंने/हमने उपरोक्त सरकारी अधिसूचना में स्टॉक के निगमन को नियंत्रित करने वाली शर्तों को पढ़ लिया है और मैं/हम उन्हें तथा निर्धारित आवेदन फार्म में दी गई शर्तों को भी स्वीकार करने का बचन देता हूँ/दिते हैं।

ध्यान दीजिए: आवेदन इस आराख में कुछ न लिखें। प्रविष्टियां लोक ऋण कार्यालय हस्ताक्षर.....

द्वारा भरी जाएंगी।

पूरा नाम.....

(साफ अक्षरों में)

आस्थाक्षर

दिनांक

आवेदन सं.

प्राप्ति का समय.....

नकद/भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के नाम
आहरित बैंक/बैंकर का भुगतान आदेश
कथ प्राप्त हुआ/जारी किया गया..... कार्यालय की मोहर.....

किस तारीख को..... पता.....

विशेष चाल खाते में जमा किया गया.....

जांचा गया..... दूरभाष सं.....

नकद आवेदन-पत्र पंजी में दर्ज किया गया..... दिनांक.....

गया.....

मास पत्र सं.....

स्क्रिप्ट सं.....

कार्ड सं.....

वाउचर सं.....

*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।

टिप्पणियाँ :

1. यदि आवेदक के हस्ताक्षर अंगुठा लगाकर किए गए हैं तो उस पर दो व्यक्तियों की गवाही दी जाए। गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ उनका पूरा नाम, व्यवसाय और पता दिया जाए।

यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाता है तो निम्नलिखित प्रलेख, यदि लोक ऋण कार्यालय में पहले से जीकृत न किए गए हों, निवेश की धनराशि सहित लोक ऋण कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं :

- (i) सम्मिलित/पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र अथवा जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपने कार्यालय की मोहर के अधीन उसकी सत्यापित प्रति।
- (ii) ज्ञापन और अंतर्नियमावली या कंपनी/निकाय के नियमों और विनियमों/उप-नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
- (iii) कंपनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में उसके/उनके विधिवत् अधि-प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) सहित संकल्प की प्रमाणित प्रति।

3. आवेदक को उन्हें जारी स्टॉक प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों पर अर्द्धवार्षिक व्याज देने के लिए निर्धारण फार्म (लोक ऋण कार्यालय से प्राप्य) भी भरकर पूरा करना चाहिए।

गर्तें

1. सरकारी स्टॉक दस हजार रुपए की न्यूनतम राशि और उसके गुणजों में जारी किया जाएगा।
3. भारतीय रिजर्व बैंक की यह विवेकाधिकार प्राप्त होगा कि वह यदि उचित समझे तो कोई कारण बताए बिना ही किसी एक अथवा सभी आवेदन-पत्रों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में अस्वीकार कर दे।
3. पार्टियों को सरकारी स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक में उनके सहायक सामान्य बही खाते में जमा करके तथा अन्यो को स्टॉक प्रमाणपत्रों के रूप में जारी किए जाएंगे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Budget Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 1995

Sale of 13.85 per cent Government Stock, 2000

F.No.F.4(4)-W&M/95.—Government of India hereby notifies sale of 13.85 per cent Government Stock of 5 year tenure for an aggregate amount of Rs. 2,000.00 crore (Nominal).

Eligibility for Investment

2. Investment in the Government Stock may be made by any person resident in India including firms, companies, corporate bodies, institutions, state governments, provident funds and trusts. However, investment by a person who is not citizen of India or a foreign company having its office in India shall be subject to the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 in addition to the other provisions of laws applicable to Government Stock as per the terms as stipulated hereinafter.

Method of Issue

3. (i) Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Fort, Bombay-400001.

(ii) In case the total subscription exceeds the sum of Rs. 2,000 crore, the Reserve Bank of India may make partial allotment to all the applicants.

(iii) Reserve Bank of India will have the discretion to accept or reject any or all applications either wholly or partially if it deems it appropriate to do so, without assigning any reason.

(iv) The amount of excess subscription in terms of clause (ii) of this paragraph or amount of subscription in case of rejection of application in terms of clause (iii) of this paragraph, will be refunded by the Reserve Bank of India to the respective subscribers as soon as possible and no interest will be paid on the amount so refunded.

Minimum Subscription

4. Government Stock will be issued for a minimum amount of Rs. 10,000/- (Face Value) and in multiples of Rs. 10,000/- thereafter.

Application Form

5. (i) Applications for purchase of Government Stock should be submitted by interested persons in the prescribed form of application given in Annexure hereto.

(ii) Blank application forms may be obtained from the Public Debt Office of the Reserve Bank of India, Fort, Bombay-400001.

(iii) The application form, duly filled in, together with payment therefor in cash or by cheque drawn on Reserve Bank of India, Bombay or by Banker's pay order should be submitted to the aforesaid Office on December 27, 1995, before the close of banking hours i.e. 2.30 p.m. Interested persons submitting applications for purchase of the Government Stock shall be bound also by the terms and conditions as included in the prescribed form of application (Annexure). The total amount of Government Stock applied for by a person should not exceed the amount of Rs. 2,000 crore.

Issue Price

6. 13.85 per cent Government Stock, 2000 will be issued at Rs. 100.00 per cent.

Participation by Reserve Bank of India

7. The Reserve Bank of India may also, if it considers appropriate to do so, subscribe to the Government Stock.

Commencement of the tenure

8. The tenure of the Government Stock will commence from December 27, 1995.

Form of Security

9. The Government Stock shall be issued in the form of Stock Certificate or Subsidiary General Ledger Account as referred to in Rule 5 of the Public Debt Rules, 1946.

Interest

10. (i) The Government Stock will bear interest at 13.85 per cent per annum and will be paid from December 27, 1995. Interest on the Stock will be paid half-yearly at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram, branches of State Bank of India and associate banks conducting government business and at any Treasury or Sub-Treasury served by the Public Debt Office where there is no office of Reserve Bank of India or branch of State Bank of India or its associates except the States of Jammu & Kashmir and Sikkim.

(ii) Interest will be paid after rounding off to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of interest less than fifty paise will be ignored and fifty paise or more will be rounded off to the next rupee.

Date of Repayment

11. The Government Stock will be repaid at par on December 27, 2000 at Public Debt Office of the Reserve Bank of India at which they are registered at the time of repayment.

The Chief General Manager
Reserve Bank of India
Public Debt Office
Fort, Bombay-400001.

Application for 13.85 per cent Government Stock, 2000.

Pursuant to Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Notification F.No * F.4(4)-W&M/95 dated December 21, 1995, *I/We _____ (full name(s) in Block letters) herewith tender *Cash/Cheque drawn on Reserve Bank of India, Bombay/Banker's Pay Order for Rs. _____ (Rupees _____) and request that 13.85 per cent Government Stock, 2000 of the nominal value of Rs. _____ may be issued to *me/us in the form of *Stock Certificate/Credit to *my/our SGL Account (No. _____)

2. *I/We desire that interest be paid at _____.

3. *I/We have read the terms and conditions governing the issuance of Stock in the aforesaid Government Notification and undertake to abide by the same and also by the terms and conditions as included in the prescribed Form of Application.

N.B.: The applicant should not write anything in this cage. The entries will be filled in by the Public Debt Office

Signature _____
Name in full _____
(Block letters)

Transferability of Government Stock

12. (i) The Government Stock can be renewed, sub-divided, consolidated, converted and transferred in accordance with the provisions of the Public Debt Act, 1944, the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder and the terms of this notification and any further notification which may be issued by the Government of India from time to time in respect of the issue covered by this notification.

(ii) The conversion of the security issued pertaining to the Government Stock from one form to the other will be subject to the restriction with respect to the forms in which the Government Stock shall be issued.

Laws applicable in regard to the Government Stock

13. (i) The rights of all persons subscribing to or holding the Government Stock shall be determined with all such questions as are dealt with by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 read with the terms of this Notification and such other Notifications as may be issued from time to time, by the Government of India in this regard or by the terms of Press Releases as may be issued in future by Reserve Bank of India, in consultation with Government of India in this regard.

(ii) The provisions of the tax laws for the time being in force in India will be applicable for the purposes of assessing and determining the liability of the investor or holder of the Government Stock.

(iii) Any dispute in relation to the Government Stock shall be decided by the Courts in India.

By Order of the President of India
RAMA MURALI, Jt. Secy. (CC&A&B)

Annexure

Initials	Date
Application No. _____	_____
Time of receipt _____	_____
Cash/Cheque drawn on Reserve Bank of India, Bombay/Banker's Pay Order received/realised on _____	_____
Credited to special Current Account on _____	_____
Examined _____	_____
Cash applications Register posted _____	_____
Indent No. _____	_____
Script No. _____	_____
Card No. _____	_____
Voucher on _____	_____
	Office Stamp
	Address: _____

	Tel No. _____
	Date: _____

*delete what is not required.

Notes:

- (1) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full name, occupation and address of the witnesses should be appended to their signature.
- (2) If the application is made in the name of a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be submitted to the Public Debt Office alongwith the investment amount:
 - (i) Certificate of Incorporation/Registration in original or a copy thereof certified as true by the issuing authority under his official seal.
 - (ii) Certified copies of Memorandum and Articles of Association or the rules and regulations/Bye-Laws of the Company/body.
 - (iii) Certified copy of resolution in favour of person/s authorised to deal in Government Securities on behalf of the company/body together with his/their duly attested specimen signature(s).
- (3) Applicant should also complete a mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for remittance of half-yearly interest on Stock Certificate/s issued to them.

Terms and Conditions

1. Government Stock will be issued for a minimum amount of Rupees Ten Thousand and in multiples thereof
2. The Reserve Bank of India will have the discretion to accept or reject any or all applications either wholly or partially without assigning any reason.
3. Government Stock will be issue to the parties by credit to their Subsidiary General Ledger Account maintained with Reserve Bank of India and in the form of Stock Certificate to others.